

प्रेस विज्ञप्ति

### जामिया के एमएससी (बीएफए) के प्रथम बैच का सफल प्लेसमेंट

एमएससी (बैंकिंग एंड फाइनेंसियल एनालिटिकल) के प्रथम बैच के 100% इंटरनशिप प्लेसमेंट से प्लेसमेंट ड्राइव की 6.25 लाख और 5 लाख रुपये के पैकेज के साथ शुरूआत हो गई है। विशेष रूप से इन कठिन और परीक्षण समय में महामारी के कारण जहां भर्ती गतिविधि पूरे देश में बाधित हुई है वहाँ अर्थशास्त्र विभाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए बहुत गर्व की बात है। यह इस तथ्य का परिणाम है कि पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सामग्री में कंपनियों की संरचनाओं के अनुरूप प्रदान करने के लिए बहुत कुछ है जोकि वर्तमान डिजिटल युग में समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा डिजाइन किया गया है।

उनके प्रयासों के लिए चयनित छात्रों को बधाई देते हुए, प्रोफेसर हलीमा सादिया रिज़वी, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र ने कहा कि यह सब विश्वविद्यालय प्लेसमेंट सेल और समन्वयक / संकाय सदस्य, अर्थशास्त्र विभाग, कंप्यूटर विज्ञान विभाग और प्रबंधन विभाग के संयुक्त प्रयासों से संभव हो सका।

प्लेसमेंट ड्राइव के लिए दो प्रतिष्ठित कंपनियों, फ़्रोनेसिस पार्टनर्स और सिआंस एनालिटिकल ने साक्षात्कार आयोजित किए। इस अभियान में सभी 41 विद्यार्थियों ने भाग लिया। तीन छात्रों को 6.25 लाख प्रति वर्ष रुपये के पैकेज पर सियान एनालिटिक्स, गुड़गांव में चुना गया और तीन को फ़्रोनेसिस पार्टनर्स, नोएडा में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की पेशकश की गई।

इसके अलावा, कई और कंपनियों जैसे एक्सीडेन्स, बाईजूज़ और अन्य ने भी 2019-21 के इस बैच के प्लेसमेंट की पेशकश का इरादा व्यक्त किया है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष और संकाय सदस्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए चयनित छात्रों को बधाई दी है।

एमएससी (बैंकिंग एंड फाइनेंसियल एनालिटिकल) का पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम संरचना विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ([www.jmi.ac.in](http://www.jmi.ac.in)) पर उपलब्ध हैं।

**जनसंपर्क कार्यालय**

जामिया मिल्लिया इस्लामिया